



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

22 अप्रैल 2011

संख्या 16

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	16 अप्रैल	8 अप्रैल	15 अप्रैल #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	8,16,016	9,52,704	9,68,411	15,707	1,52,395
संचलन में नोट	8,15,999	9,52,690	9,68,398	15,707	1,52,399
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	17	14	14	—	-3
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	101	100	100	—	—
बाजार स्थिरीकरण योजना	2,737	—	—	—	-2,737
राज्य सरकार	41	42	399	357	358
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,84,491	2,77,039	3,55,262	78,223	70,771
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,412	3,465	3,836	371	-576
अन्य बैंक	13,678	15,526	16,064	538	2,387
अन्य	11,997	10,564	10,679	115	-1,318
अन्य देयताएं	3,03,574	3,58,129	3,70,984	12,855	67,411
कुल देयताएं / आस्तियां	14,37,047	16,17,570	17,25,737	1,08,166	2,88,690
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	11,38,683	12,24,008	12,35,964	11,957	97,281
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	81,188	1,02,572	1,02,572	—	21,384
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,99,669	2,39,217	3,22,551	83,335	1,22,883
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	379	37,038	50,607	13,569	50,228
राज्य सरकारें	159	1,787	2,919	1,132	2,760
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	—	1,065	1,873	808	1,873
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	30	30	—	30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	28	25	293	268	265
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	1,320	1,320	—	-1,430
अन्य आस्तियां	14,190	10,508	7,607	-2,901	-6,583

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	15 अप्रैल 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	13,71,147	307,917	12,417	-286	10,133	3,099	38,793	10,583	1,23,861	27,828
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	12,34,851	277,370	11,944	-311*	9,968	3,040	34,774	9,556	97,280	21,679
(ख) स्वर्ण \$	1,02,572	22,972	—	—	—	—	1,886	502	21,384	4,986
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	20,501	4,605	287	15	100	36	-2,252	-473	-1,860	-421
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,223	2,970	186	10	65	23	4,385	998	7,057	1,584

+ आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया ₹ 1,113 करोड़ / 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश छोड़कर।

* अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होने वाली मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

@ इसमें सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीओर (4,883 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीओर (340 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$ इसमें ₹ 31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	8 अप्रैल 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		परखाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	73,840	2,152	42	2,152	11,950	8,867
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	27,582	-1,985	-10,134	-1,985	-5,760	5,358
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	10,376	3,243	1,744	3,243	-12,352	2,655
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	53,24,953	1,20,250	50,440	1,20,250	6,37,385	7,81,687
		(2.3)	(1.1)	(2.3)	(16.3)	(17.2)
मांग	6,25,722	-13,300	-41,939	-13,300	94,499	22,052
मीयादी	46,99,231	1,33,550	92,379	1,33,550	5,42,885	7,59,635
उधार ⁽³⁾	1,40,164	8,498	9,302	8,498	9,735	26,584
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,58,781	16,429	-4,141	16,429	13,435	33,501
रिजर्व बैंक से उधार	1,065	-3,966	-42	-3,966	-6,968	1,065
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,05,580	-43,742	-47,204	-43,742	58,592	45,816
पास में नकदी	28,541	-1,618	-1,231	-1,618	3,898	4,195
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,77,039	-42,124	-45,973	-42,124	54,694	41,622
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	55,493	610	-3,560	610	5,787	-3,368
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	14,037	-2,311	-7,047	-2,311	-7,138	3,416
बैंकों को अग्रिम	12,759	1,168	-1,751	1,168	5,687	4,618
अन्य आस्तियां	67,635	2,496	-1,411	2,496	-5,981	24,582
निवेश⁽⁵⁾	15,68,321	68,282	80,235	68,282	2,13,285	1,03,334
		(4.6)	(5.8)	(4.6)	(17.0)	(7.1)
सरकारी प्रतिभूतियों में	15,63,827	68,360	80,383	68,360	2,17,503	1,05,049
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,495	-77	-148	-77	-4,218	-1,715
बैंक ऋण	39,56,407	17,748	-999	17,748	4,74,630	7,12,618
		(0.5)	(—)	(0.5)	(17.1)	(22.0)
खाद्य ऋण	49,927	-14,356	-341	-14,356	1,399	1,778
खाद्येतर ऋण	39,06,480	32,104	-658	32,104	4,73,231	7,10,840
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	38,04,744	14,273	714	14,273	4,55,001	6,81,871
देशी बिल - खरीदे गए	13,858	364	187	364	-328	1,657
भुनाए गए ⁽⁶⁾	82,621	2,899	-1,225	2,899	17,193	21,628
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,485	-121	-56	-121	-2,309	2,408
भुनाए गए	36,700	332	-620	332	5,073	5,054
नकद-जमा अनुपात	5.74					
निवेश-जमा अनुपात	29.45					
ऋण-जमा अनुपात	74.30					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफिजम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	9 अप्रैल	4 मार्च	11 मार्च	18 मार्च	25 मार्च	1 अप्रैल	8 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.75	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	11.00/12.00	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50
जमा दर ⁽³⁾	6.00/7.50	7.75/9.50	7.75/9.50	7.75/9.50	7.75/9.50	7.75/9.50	7.75/9.50
मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत) ⁽⁴⁾	3.22	6.91	6.83	7.11	7.58	7.61	6.31

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है। मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा - भारांकित औसत है।

(करोड ₹)

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यरो सुंदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	8 अप्रैल #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम₃	64,91,756	66,28,680	1,31,932	2.0	63,879	1.1	1,36,924	2.1	7,85,485	16.1	9,62,069	17.0
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,170	9,31,573	12,230	1.3	18,655	2.4	17,403	1.9	1,04,562	15.3	1,45,425	18.5
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,13,735	7,00,376	-13,359	-1.9	-46,140	-6.4	-13,359	-1.9	1,05,714	18.7	28,547	4.2
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,60,111	49,94,868	1,34,757	2.8	91,041	2.2	1,34,757	2.8	5,81,465	16.0	7,90,397	18.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,740	1,863	-1,696	-47.7	324	8.4	-1,877	-50.2	-6,257	-60.0	-2,300	-55.2
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,72,422	19,24,548	31,173	1.6	986	0.1	-47,874	-2.4	3,75,822	29.0	2,54,376	15.2
(क) रिजर्व बैंक	3,95,436	2,78,111	-38,278		-80,059		-1,17,325		1,40,493		1,46,584	
(ख) अन्य बैंक	15,76,986	16,46,437	69,451	4.4	81,045	5.6	69,451	4.4	2,35,328	18.1	1,07,792	7.0
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,10,535	42,27,401	17,270	0.4	-68	—	16,866	0.4	4,82,282	16.0	7,36,060	21.1
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,325	-435	—	—	—	-839	—	-12,042	—	-3	—
(ख) अन्य बैंक	42,08,371	42,26,076	17,705	0.4	-68	—	17,705	0.4	4,94,324	16.5	7,36,063	21.1
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,75,762	13,73,771	3,361	0.2	-15,804	-1.2	-1,991	-0.1	-66,362	-5.0	1,08,106	8.5
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,586	12,586	—	—	—	—	—	—	1,215	12.1	1,316	11.7
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं जिनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	10,79,549	9,09,626	-80,129	-8.1	-78,765	-9.3	-1,69,923	-15.7	7,472	1.0	1,37,789	17.9
	3,67,128	3,56,509	-6,339	-1.7	-13,665	-4.5	-10,619	-2.9	-83,566	-22.5	68,560	23.8

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	15 अप्रैल #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	13,76,770	13,58,124	94,955	7.5	-21,972	-1.9	-18,646	-1.4	1,91,415	20.3	2,24,410	19.8
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,521	9,80,983	15,707	1.6	27,720	3.5	31,463	3.3	1,13,213	15.9	1,53,715	18.6
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,75,163	79,132	26.7	-49,718	-14.1	-48,347	-11.4	79,831	35.8	72,582	24.0
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,740	1,978	115	6.2	26	0.7	-1,762	-47.1	-1,629	-29.6	-1,887	-48.8
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,95,436	3,75,768	97,657		-14,042		-19,668		1,65,741		1,78,224	
	3,94,035	3,73,248	96,882		-14,155		-20,787		1,65,581		1,75,822	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से : बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,324	3,496	1,076		-1,169		-3,828		-13,622		2,168	
	5,159	1,947	852		-1,169		-3,213		-1,980		1,947	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	13,38,519	11,957	0.9	-12,095	-1.0	9,965	0.8	-32,682	-2.6	1,18,665	9.7
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,586	12,586	—	—	—	—	—	—	1,215	12.1	1,316	11.7
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,67,128	3,72,244	15,735	4.4	-5,334	-1.8	5,116	1.4	-70,763	-19.3	75,963	25.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 अप्रैल 2011	2	4	1,660	4	1,660	6.75	—	—	—	—	—	1,660	
11 अप्रैल 2011 \$	2	18	26,195	18	26,195	6.75	2	325	2	325	5.75	25,870	-27,530
13 अप्रैल 2011	2	11	17,210	11	17,210	6.75	—	—	—	—	—	17,210	
13 अप्रैल 2011 \$	2	14	8,000	14	8,000	6.75	2	440	2	440	5.75	7,560	-24,770
15 अप्रैल 2011	3	12	3,875	12	3,875	6.75	—	—	—	—	—	3,875	
15 अप्रैल 2011 \$	3	15	18,900	15	18,900	6.75	3	365	3	365	5.75	18,535	-22,410

@ रिपो को घटकर। \$ द्वितीय एलएएफ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

टिप्पणी: 8 मई 2009 से सामान्यतया रिपोर्टिंग शुक्रवार को द्वितीय एलएएफ (एसएलएएफ) आयोजित किया जा रहा है। चलनिधि को सुगम बनाने के उपाय के रूप में एसएलएएफ को 6 मई 2011 तक की अवधि के लिए दैनिक आधार पर अस्थायी रूप से आयोजित किया जा रहा है।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 6 अक्टू. 5 जन.	8 अक्टू. 7 जन.	4,000 4,000	64 85	7,411 10,008	500 500	45 40	4,000 4,000	500 500	— —	4,500 4,500	98.44 98.27	6.3977 7.1027	59,279 62,859
2011-2012 6 अप्रैल 13 अप्रैल	8 अप्रैल 15 अप्रैल	4,000 4,000	78 70	14,105 10,605	— 1,000	35 36	4,000 4,000	— 1,000	— —	4,000 5,000	98.26 98.24	7.1443 7.1858	69,845 70,345
182-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 7 जुलाई 13 अक्टू. 5 जन.	9 जुलाई 15 अक्टू. 7 जन.	1,500 2,000 1,500	42 46 50	2,747 3,434 5,332	300 — —	30 21 14	1,500 1,000 1,500	300 — —	— — —	1,800 1,000 1,500	97.27 96.73 96.53	5.7771 6.8225 7.2954	21,800 20,300 20,500
2011-2012 13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
364-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 14 जुलाई 6 अक्टू. 12 जन.	16 जुलाई 8 अक्टू. 14 जन.	1,000 2,000 1,000	61 57 48	5,460 4,531 3,969	— 42 —	14 33 8	1,000 2,000 1,000	— 42 —	— — —	1,000 2,042 1,000	94.66 93.67 93.08	5.6903 6.8564 7.5012	45,614 42,644 42,610
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456

टिप्पणी: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कोमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

1	दिनांक														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	9 अप्रैल	10 अप्रैल	11 अप्रैल	12 अप्रैल	13 अप्रैल	14 अप्रैल	15 अप्रैल	16 अप्रैल	17 अप्रैल	18 अप्रैल	19 अप्रैल	20 अप्रैल	21 अप्रैल	22 अप्रैल	
22 अप्रैल 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निष्ठा अपेक्षाएँ	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	3,31,145	
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	2,82,053	2,82,053	3,50,638	3,49,050	3,52,514	3,52,514	3,52,846								

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संवर्धित आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा		कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
1		2		3		4	
9 अप्रैल 2010		3,41,830		21,791		4.35	— 8.95
2 जुलाई 2010		3,42,362		44,167		5.92	— 7.05
8 अक्टूबर 2010		3,44,158		38,285		6.36	— 8.26
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019		7.18	— 9.82
25 फरवरी 2011		4,18,524		40,177		9.72	— 10.60
11 मार्च 2011		4,30,971		73,542		7.65	— 10.72

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अप्रैल 2010	83,165	12,207	3.85 — 8.40
15 जुलाई 2010	1,07,755	11,680	6.02 — 8.75
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50 — 10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60 — 11.95
28 फरवरी 2011	1,01,291	9,670	6.32 — 13.05
15 मार्च 2011	96,487	16,167	7.20 — 13.50

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बढ़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		मार्च	2 अप्रैल \$#	मार्च #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य @	100.00	135.8	..	148.0	..	1.4	9.0	9.0
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	165.9	190.6	187.4	1.3	-0.2	13.0	13.0
(i) फल और सब्जियां	3.84	139.5	177.8	163.5	7.6	-0.4	17.2	17.2
ईंधन और विद्युत	14.91	140.1	159.4	158.2	0.6	3.9	12.9	12.9
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	125.6	..	133.4	..	1.4	6.2	6.2
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	177.8	..	163.4	..	0.6	-8.1	-8.1
(ii) खाद्य तेल	3.04	114.0	..	128.3	..	0.5	12.5	12.5
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	151.2	..	154.2	..	1.6	2.0	2.0
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	123.8	..	136.3	..	2.3	10.1	10.1

\$ साप्ताहिक आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	15 अप्रैल	11 अप्रैल	12 अप्रैल +	13 अप्रैल	14 अप्रैल +	15 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	17639.26	19262.54		19696.86		19386.82
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5273.60	5785.70		5911.50		5824.55

+ बाजार बंद।

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	4 मार्च 2011	11 मार्च 2011	18 मार्च 2011	25 मार्च 2011	1 अप्रैल 2011	8 अप्रैल 2011	15 अप्रैल 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	11,834	8,374	13,542	8,828	10,860	11,518	14,495
ख) दिए गए ऋण	12,106	8,673	13,873	8,970	11,066	11,992	15,202
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	272	299	331	156	206	474	709
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	14	—	—	2
3. कुल							
क) लिए गए उधार	12,106	8,673	13,873	8,984	11,066	11,992	15,204
ख) दिए गए ऋण	12,106	8,673	13,873	8,984	11,066	11,992	15,204

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	11 मार्च 2011	18 मार्च 2011	25 मार्च 2011	1 अप्रैल 2011	8 अप्रैल 2011	15 अप्रैल 2011
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	92,333	80,440	58,086	64,501	50,856	47,087
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	2,211	2,701	1,931	3,708	1,557	1,374
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	7,365	5,501	6,401	5,331	10,312	5,692
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,663	1,076	2,061	610	1,263	1,538
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,295	2,362	2,442	2,177	2,647	488
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	—	—	158	—	17	23

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक्						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
28 मार्च 2011	4,176	1,567	855	527	1,035	1,076	6,666	8,787	2,200	3,080	1,839	816
29 मार्च 2011	6,271	2,036	3,629	433	515	479	13,552	11,977	2,045	2,998	2,697	393
30 मार्च 2011	4,565	2,081	1,367	422	267	171	6,574	10,377	2,270	2,107	2,206	446
31 मार्च 2011	5,174	2,445	1,593	400	382	315	9,176	11,159	2,783	1,701	2,306	475
1 अप्रैल 2011 +												
बिक्री												
28 मार्च 2011	3,708	2,029	797	628	1,048	1,161	7,112	8,019	1,966	3,043	2,279	873
29 मार्च 2011	4,910	3,791	3,086	518	508	436	10,896	11,359	2,720	3,120	2,680	400
30 मार्च 2011	4,068	1,590	1,509	465	272	119	7,410	10,407	1,978	2,164	2,173	418
31 मार्च 2011	4,618	3,130	1,974	318	368	309	9,715	11,247	3,210	1,716	2,349	470
1 अप्रैल 2011 +												

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा । आइ एन आर = भारतीय रुपया । + बाजार बंद।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक् और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	11 मार्च 2011	18 मार्च 2011	25 मार्च 2011	1 अप्रैल 2011	8 अप्रैल 2011	15 अप्रैल 2011
1	2	3	4	5	6	7
राशि	703.90	484.21	3,069.74	373.82	1,206.97	755.55

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	15 अप्रैल 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	25,750	6,131	11,208	43,089	387	-330
राज्य सरकारें	80,200	9,336	2,000	351	91,887	-7,367	-19,602
अन्य	2,020	35,259	16,370	30,897	84,546	664	1,147

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार : 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (15 अप्रैल 2011 तक)	2010-2011 (16 अप्रैल 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (15 अप्रैल 2011 तक)	2010-2011 (16 अप्रैल 2010 तक)	2010-2011
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल	12,000	25,000	4,37,000	12,000	25,000	3,25,414
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन* बिक्री खरीद	13 27	239 250	11,575 78,799			

* भारिबैं.के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	8 अप्रैल 2011 को समाप्त सप्ताह			15 अप्रैल 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	601	7.3208	7.4011	243	7.4333	7.7136
2012-13	258	7.4333	7.6794	80	7.4490	7.5336
2013-14	81	7.5610	7.8198	5	7.5769	7.5769
2014-15	1	—	—	350	7.9833	8.0136
2015-16	917	7.8502	7.9409	699	7.8624	8.0069
2016-17	31	7.9150	7.9576	12	7.9188	7.9539
2017-20	2,744	7.9042	8.3514	3,100	7.7923	8.1502
2020-21	877	7.9649	8.0513	331	7.9478	8.0815
2021 से आगे	19,920	8.0345	8.3578	18,725	7.7984	8.4530
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	778	8.1208	8.3773	687	7.9000	8.4107
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	1,994	5.7786	7.3044	151	5.6166	6.9924
ख) 15 - 91 दिन	4,077	6.3274	7.2688	2,888	6.5997	7.1858
ग) 92 - 182 दिन	353	7.0500	7.4895	595	7.1900	7.4462
घ) 183 - 364 दिन	678	7.3800	7.5012	225	7.3500	7.4800
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	—			13		
: खरीद	17			10 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	69,657	1.50 (1)	8.00 (15)	26,636	3.00 (2)	8.75 (56)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	226	3.15 (1)	5.25 (3)	183	6.30 (2)	6.70 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	15,527	3.00 (1)	6.85 (3)	9,748	6.30 (2)	6.75 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	5,421	0.25 (1)	6.85 (3)	733	6.30 (2)	6.75 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	8,485	0.25 (1)	6.35 (3)	217	6.20 (2)	6.75 (2)
IV. भा.रि.बैं. * : रिपो * ^	15,880	—	6.75	75,840	—	6.75
: रिवर्स रिपो !	2,47,790	—	5.75	1,130	—	5.75

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹ 5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹ 800 और ₹ 2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 से प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।